

भारत के शहरी बुनियादी ढाँचे हेतु वित्तपोषण

प्रलम्ब के लिये:

वशिव बैंक, शहरी स्थानीय निकाय, स्मार्ट सटीज मशिन (SCM), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

मेन्स के लिये:

शहरीकरण और संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **वशिव बैंक** द्वारा "फाइनेंसिंग इंडियाज़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स: कंस्ट्रेंट्स टू कमरशियल फाइनेंसिंग एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पॉलिसी एक्शन" शीर्षक से रपॉर्ट जारी की गई।

- यह रपॉर्ट उभरती हुई वित्तीय कमियों को पूरा करने के लिये नजि और वाणज्यिक नविशों का अधिक लाभ उठाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

प्रमुख बटु

- नविश की आवश्यकता:**
 - अगर भारत को अपनी तेज़ी से बढ़ती शहरी आबादी की ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करना है तो उसे अगले 5 वर्षों में शहरी बुनियादी ढाँचे में 840 अरब अमेरिकी डॉलर का नविश करने की आवश्यकता होगी।
- शहरों में रहने वाले लोग:**
 - वर्ष 2036 तक 600 मिलियन लोग भारत के शहरों में रह रहे होंगे, जो जनसंख्या का 40% प्रतिनिधित्व करते हैं।
 - इससे स्वच्छ पेयजल, वशिवसनीय वदियुत् आपूर्ति, कुशल और सुरक्षित सड़क परिवहन आदि की अधिक मांग के साथ भारतीय शहरों की शहरी अवसंरचना और सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है।
 - वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारें शहर के बुनियादी ढाँचे में 75% से अधिक का वित्तपोषण करती हैं, जबकि शहरी स्थानीय निकाय (ULB) अपने स्वयं के अधिशेष राजस्व के माध्यम से 15% का वित्तपोषण करते हैं।
 - वर्तमान में भारतीय शहरों की बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतों का केवल 5% ही नजि स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है।
- केंद्र के प्रमुख शहरी मशिनों का धीमा कार्यान्वयन:**
 - उदाहरण के लिये **स्मार्ट सटी मशिन (SCM)** और **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)** जैसे केंद्र के कई प्रमुख शहरी मशिनों पर राज्यों एवं शहरी स्थानीय निकायों (ULB) द्वारा धीमा कार्यान्वयन प्रदर्शन भी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे शहरी स्तर पर कार्यान्वयन क्षमता बाधित होती है।
 - ULB ने अब तक पूरे भारत में पछिले छह वित्तीय वर्षों में **SCM (कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मशिन (AMRUT))** के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के संचयी लागत या परवियय का लगभग पाँचवाँ हिस्सा ही नषिपादित किया है।
- शहरी अवसंरचना हेतु PPP अंतरण:**
 - भारत में शहरी बुनियादी ढाँचे के लिये **सार्वजनिक-नजि भागीदारी (PPP)** अंतरण ने पछिले दशक में मौद्रिक मूल्य और अंतरण की मात्रा दोनों में एक उल्लेखनीय गरिवट दर्ज की है - वर्ष 2000 से शहरी क्षेत्र में 124 PPP परियोजनाओं को कुल 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तपोषण किया गया है।
 - हालाँकि PPP परियोजना वित्तपोषण में वर्ष 2007 और 2012 के बीच "संक्षिप्त लेकिन पर्याप्त वृद्धि" के बाद काफी गरिवट आई है, जब इनमें से अधिकांश परियोजनाओं को सम्मानित किया गया था। वर्ष 2000 के बाद से प्रदान किये गए सभी PPP नविशों में से केवल एक-तर्हिई नविश पछिले दशक में हुआ जिसमें 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 55 परियोजनाएँ शामिल हैं।

सुझाव:

- यह सुझाव दिया गया है कि शहरी एजेंसियों को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिये और अधिक अधिकार प्रदान किये जाए।
 - पछिले तीन वित्तीय वर्षों में दस सबसे बड़े ULB के पूंजीगत बजट का केवल दो-तहियाई खर्च किया जा सका।
- यह रपॉर्ट मध्यम अवधि के लिये कई संरचनात्मक परिवर्तनों की सफारिश करती है, जिसमें राजकोषीय हस्तांतरण प्रणाली और कराधान नीति शामिल हैं।
 - यह शहरों को अधिक नजीक वित्तपोषण का लाभ उठाने में मदद कर सकती है।
- इसने शहरों के लिये फॉर्मूला-आधारित तथा बिना शर्त वित्त अंतरण के साथ-साथ शहरी एजेंसी के अधिदेश के प्रगतशील वस्तितार का सुझाव दिया।

शहरीकरण:

- **परिचय:**
 - जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या में तदनु रूप गरिवट और जसि प्रकार से समाज इस परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को ढालता है, समग्र रूप से इसे **शहरीकरण** कहा जाता है।
- **शहरीकरण के कारण:**
 - **प्राकृतिक रूप से जनसंख्या वृद्धि:** यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर अधिक होती है।
 - **ग्रामीण से शहरी प्रवास:** यह ऐसे कारणों जो लोगों को शहरी क्षेत्रों में आकर्षित करते हैं और ऐसे कारणों जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से दूर भगाते हैं, से प्रेरित है।
 - रोजगार के अवसर, शैक्षणिक संस्थान और शहरी जीवन-शैली मुख्य आकर्षण के कारक हैं।
 - साथ ही रहने की खराब स्थिति, शैक्षणिक और आर्थिक अवसरों की कमी तथा खराब स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ मुख्य कारक हैं।
- **वैश्विक शहरीकरण:**
 - सबसे अधिक शहरीकृत क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका (2022 तक शहरी क्षेत्रों में 83% आबादी), लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (81%), यूरोप (75%) तथा ओशनिया (67%) शामिल हैं।
 - एशिया में शहरीकरण का स्तर लगभग 52% है।
 - अफ्रीका का परिवेश अधिकांशतः ग्रामीण है, इसकी 44% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है।
- **संबंधित पहल:**
 - **शहरीकरण के लिये भारत की पहल:**
 - **शहरी विकास से संबंधित योजनाएँ/कार्यक्रम:**
 - [स्मार्ट शहर](#)
 - [अमृत मशिन](#)
 - [स्वच्छ भारत मशिन-शहरी](#)
 - [हृदय योजना](#)
 - [प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी](#)
 - **सलम वासियों/शहरी गरीबों के लिये सरकार की पहल:**
 - [प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना](#)
 - [आत्मनिर्भर भारत अभियान \(आत्मनिर्भर भारत\)](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया से उत्पन्न वभिन्न सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कीजिये। (2013)

प्रश्न. भारत में शहरी जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ 'स्मार्ट सटी कार्यक्रम' के उद्देश्यों और रणनीतिको पेश कीजिये। (2016)

स्रोत: द हद्रि